

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1966/पौष 7, 1888

No. 440]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 1966/PAUSA 7, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th December 1966

S.O. 4033.—In the Government of India, Ministry of Commerce Order No. S.O. 3986, dated the 24th December, 1966, published at pages 1751 and 1752 in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 24th December, 1966, the following correction shall be made, namely:

In item (ii) of sub-clause (f) of clause 2,

<i>For</i>	<i>Read</i>
varn and fibre	varu and fabric

[No. F. 11(1)-Tex(A)/66.]

A. V. VENKATESWARAN Jt. Secy.

(1757)

